



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 अग्रहायण 1937 (श10)

(सं० पटना 1296) पटना, सोमवार, 30 नवम्बर 2015

I kekU; i z kkl u foHkkx

अधिसूचना

30 uoEcj 2015

सं० 3/एच०- 02/2014(खण्ड)सा०प्र०-16540—विभागीय अधिसूचना संख्या- 13946 दिनांक 10.10.2014 की अनुसूची-1 द्वारा खानकाह मुजीबिया, फुलवारीशरीफ की सूचना के आधार पर चेहल्लुम के लिए वर्ष 2015 में दिनांक 04.12.2015 को बिहार सरकार के अधीन सभी कार्यालयों और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के लिए अवकाश की घोषणा की गयी है। मजलिसे उल्मा व खोतबा इमामिया, बिहार के पत्र संख्या- शून्य दिनांक 29.11.2015 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार चेहल्लुम का पर्व वर्ष 2015 में चाँद के अनुसार दिनांक 03.12.2015 को पड़ रहा है।

अतः अधिसूचना संख्या-13946 दिनांक 10.10.2014 द्वारा चेहल्लुम के लिए घोषित अवकाश दिनांक 04.12.2015 (शुक्रवार) को रद्द करते हुए उसके स्थान पर राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों एवं राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में दिनांक 03.12.2015 (गुरुवार) को चेहल्लुम के अवसर पर कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1296-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>